



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 19 नवम्बर, 2022

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना खुर्जा नगर

स्वाट टीम व थाना खुर्जा नगर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में व्यापारी के अपहरण में वांछित 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 19/20.11.2022 की रात्रि को स्वाट टीम एवं थाना खुर्जा नगर पुलिस तलाश वांछित अपराधियों की धरपकड़ में मामूर थी कि इसी दौरान पुलिस टीम को तकनीकी माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई कि व्यापारी के अपहरण में वांछित चल रहे बदमाश बाइक पर सवार होकर जेवर अड्डे से पंचवटी बम्बे की ओर जा रहे हैं। तत्काल स्वाट टीम एवं थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए पंचवटी बम्बे पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बाइक सवार बदमाश तेज गति से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो श्मसान घाट के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार किया गया तथा एक बदमाश मौके से फरार हो गया जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान **1. सोनू चौधरी पुत्र रामनिवास चौधरी निवासी शास्त्रीनगर थाना नौचंदी जनपद मेरठ के रूप में हुई हैं।** जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत मुअसं-999/22 धारा 364 भादवि , मुअसं-306/22 धारा 364/511/323 भादवि, मुअसं-1017/22 धारा 307/414/482/420 भादवि से लगातार वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- सोनू पुत्र रामनिवास निवासी शास्त्रीनगर थाना नौचंदी जनपद मेरठ।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस

2- 01 बाइक पैशन प्रो नम्बर- बिना नम्बर

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-306/22 धारा 364/511/323 भादवि थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।

2. मुअसं-999/22 धारा 364 भादवि थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।


3. मुअसं-1017/22 धारा 307/414/482/420 भादवि थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।

4. मुअसं-1029/22 धारा 364/511/323 भादवि थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर।
- 2- निरीक्षक श्री सरजेश कुमार थाना खुर्जा नगर।
- 3- है0का0 सितम सिंह , का0 आरिफ, का0 कुनाल पांचाल, का0 हितेश, का0 अखिलेश, का0 मोहित सुधीर कुमार पटनीश प्रभारी स्वाट टीम।
- 4- उ0नि0 लोकेन्द्र, है0का0 मनोज दीक्षित, है0का0 विकास चौधरी, है0का0 जितेन्द्र यादव, का0 वसीम खान, का0 नीरज त्यागी, का0 कपिल नैन, का0 सन्दीप कुमार, का0 अमन यादव।



मीडिया सेल बुलंदशहर